



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section—3 Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 1979/ फाल्गुन 4, 1900

No. 49]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 1979/PHALGUNA 4, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1979

सं. का. नि. 80 (अ).—धान कटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए नियमों का कतिपय आरूप, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 371(अ), तारीख 15 जुलाई, 1978 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1), तारीख 15 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 623 से 626 पर, धान कटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षाानुसार प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसके उस राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, वैसाहीम जिन को अधिनियम की समाप्ति से पूर्व आपीत्तियाँ और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 21 जुलाई, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केंद्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आपीत्तियाँ और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धान कटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम धान कटाई (विनियमन और अनुज्ञापन) (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये तुरन्त प्रभावी होंगे।

2. धान कटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में,—

(1) नियम 3 के, उपनियम (3) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) यदि प्रस्थापित मिल में एक या एक से अधिक हलर हैं, तो आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई हलर धान की भूसी उत्तारने के लिए उपयोग में न लाया जाए, और ऐसे भूसी उत्तारन के प्रयोजनार्थ ऐसा आवेदक, ऐसे स्थापन या किसी निष्क्रिय चावल मिल में कटाई के काम को फिर से आरम्भ करने के पूर्व किसी भी समय धान मार्जक और धान पृथक्त्र के साथ-साथ एक रबड़ रॉल रोलर या अपकेंद्री डीहस्कर लगाए ;

परन्तु, एकल हलर की दशा में, डीहस्कर धान मार्जक और धान पृथक्त्र या तो अलग-अलग पृथक् एककों के रूप में लगाए जा सकेंगे या एक एकीकृत संयुक्त मिल में लगाए जा सकेंगे ;

परन्तु यह और, कि यह खण्ड, चावल मिलों के उन नये एककों को लागू नहीं होगा जो 15 अश्वशक्ति या उससे कम शक्ति वाले हैं तथा जिनमें एक से अधिक हलर नहीं हैं और जिनमें अपना अंशकवचन उपस्कार नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं तथा जो अंशकवचन धान की कंवल प्रधानरार कटाई करते हैं :

परन्तु यह भी, कि द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट मिलें, उस तारीख से, जिसका प्रारम्भ में अनुज्ञापित दी गई थी, 5 वर्ष की अवधि के भीतर एक धान मार्जक और धान पृथक्कृत सहित खड रोल शेलर या अपकेंद्री डीहस्कर लगाएंगी।”

(2) अनुसूची में, प्ररूप 4 में, खण्ड 3 में, शर्त 3(घ) के पश्चात् निम्नीलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3ड) नियम 3 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के द्वितीय और तृतीय परन्तुक में निर्दिष्ट चावल मिल का अनुज्ञापितधारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुज्ञापित की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर, एक धान मार्जक और धान पृथक्कृत सहित एक खड रोल शेलर या अपकेंद्री डीहस्कर लगा दिया जाएगा।”

[सं. 15(जनरल) (10)177-डी, एण्ड आर.(1)64]
के. सी. एस. आचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 1979

G.S.R. 80(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, were published as required by sub-section (1) of Section 22 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), at pages 625 to 626 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th July, 1978, under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. G.S.R. 371(E), dated the 15th July, 1978, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 21st July, 1978;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment) Rules, 1979.

1. (1) These rules may be called the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules 1959.—

(i) in rule 3, in sub-rule (3), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) in case the proposed mill consists of one or more than one huller, the applicant shall ensure that no such huller is utilised for dehusking paddy and that for the purpose of such dehusking such applicant installs a rubber roll sheller or centrifugal dehusker along with a paddy cleaner and a paddy separator at any time before such establishment or recommencement of milling operations in a defunct rice mill :

Provided that in the case of a single huller, the dehusker, paddy cleaner and paddy separator may be installed either as individual separate units or be incorporated into one integrated composite mill :

Provided further that this clause shall not apply to new units of rice mills powered by motor of 15 horse-power and less, and consisting of not more than one huller and having no parboiling equipment of their own, which will be located in rural areas and which will be doing only custom milling of parboiled paddy :

Provided also that the mill referred to in the second proviso shall instal a rubber roll sheller or centrifugal dehusker along with a paddy cleaner and paddy separator within a period of 5 years from the date on which licence is initially granted;”

(ii) in the Schedule, in Form IV, in clause 3, after condition 3(D), the following shall be inserted, namely :—

“(3E) The licensee of rice mill referred to in the second and third proviso to clause (a) of sub-rule (3) of rule 3 shall ensure that a rubber roll sheller or a centrifugal dehusker along with a paddy cleaner and a paddy separator is installed within a period of 5 years from the date of this licence.”

[No. 15(Genl) (10)177-D&R(1)-64]

K. C. S. ACHARYA, Jt. Secy.